

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 जून 2010—ज्येष्ठ 18, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2010

क्र. बी-11-4-2010-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 के लिये संलग्न सूची के अनुसार तहसील स्तर पर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये
फसलवार जिलों एवं तहसीलों की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)
-------------	-------------	--------------

फसल—ज्वार :

1	श्योपुर	1 श्योपुर
		2 कराहल
2	ग्वालियर	3 ग्वालियर
		4 डबरा
3	भिण्ड	5 मेहगांव
		6 गोहद
		7 लहार
4	शिवपुरी	8 कोलारस
		9 खलियाधाना

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)
-------------	-------------	--------------

फसल—ज्वार :

5	गुना	10 गुना
		11 राघोगढ़
		12 आरोन
		13 चाचौड़ा
		14 कुम्भराज
6	शहडोल	15 ब्यौहारी
		16 जयसिंहनगर
7	खण्डवा	17 खण्डवा

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
फसल—ज्वार :			फसल—ज्वार :		
		18 हरसूद	22 छिन्दवाड़ा	60 छिन्दवाड़ा	
		19 पंधाना		61 तामिया	
8	बुरहानपुर	20 बुरहानपुर		62 जुन्नारदेव	
		21 खकनार		63 परासिया	
		22 नेपानगर		64 अमरवाड़ा	
9	सागर	23 खुरई		65 चौरई	
		24 बण्डा		66 सौंसर	
10	दमोह	25 पटेरा		67 बिछुआ	
		26 बटियागढ़		68 पाण्डुर्णा	
11	सीधी	27 रामपुर	23 सिवनी	69 सिवनी	
		28 चुरहट		70 घन्सौर	
		29 गोपदबनास	24 देवास	71 देवास	
		30 मझौली		72 टोंकखुर्द	
		31 सिंहावल		73 सोनकच्छ	
12	सिंगरौली	32 देवसर		74 बागली	
		33 चितरंगी		75 कन्नोद	
		34 सिंगरौली	25 मन्दसौर	76 खातेगांव	
13	पन्ना	35 अजयगढ़		77 सीतामऊ	
		36 पन्ना		78 गरोठ	
		37 पवई	26 रतलाम	79 भानपुर	
		38 गुन्नौर		80 आलोट	
14	सतना	39 मझगावां	27 सीहोर	81 जावरा	
15	रीवा	40 त्यौंथर		82 सीहोर	
		41 मऊगंज		83 आष्टा	
16	छतरपुर	42 नौगांव	28 खरगोन	84 इच्छावर	
		43 गौरिहार		85 खरगोन	
		44 बिजावर		86 सैगांव	
		45 लौण्डी		87 भगवानपुरा	
17	टीकमगढ़	46 निवाड़ी		88 झिरन्या	
		47 पृथ्वीपुर		89 बड़वाह	
		48 पलेरा		90 कसरावद	
		49 जतारा		91 महेश्वर	
18	बड़वानी	50 बड़वानी	29 झाबुआ	92 भीकनगांव	
		51 ठीकरी		93 झाबुआ	
		52 सेंधवा	30 अलीराजपुर	94 राणापुर	
		53 राजपुर		95 जोबट	
		54 पानसेमल	31 धार	96 अलीराजपुर	
		55 निवाली		97 कुक्षी	
19	जबलपुर	56 शाहपुर		98 गंधवानी	
		57 जबलपुर	32 उज्जैन	99 मनावर	
20	कटनी	58 बड़वारा		100 महिदपुर	
21	नरसिंहपुर	59 गाडरवारा	33 नीमच	101 तराना	
				102 मनासा	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
फसल—ज्वार :			फसल—मूंगफली :		
34	शाजापुर	103 सुसनेर 104 नलखेड़ा 105 बड़ौद 106 बड़ोडिया 107 गुलाना 108 शुजालपुर 109 कालापीपल 110 शाजापुर	5 शाजापुर 6 नीमच 7 खण्डवा	21 पांढुर्णा 22 अमरवाड़ा 23 परासिया 24 चौरई 25 सुसनेर 26 जावद 27 खण्डवा 28 पन्धाना	
35	भोपाल	111 बैरसिया	8 बड़वानी	29 बड़वानी	
36	राजगढ़	112 राजगढ़ 113 ब्यावरा 114 नरसिंहपुर 115 सारंगपुर 116 खिलचीपुर 117 जीरापुर	9 झाबुआ	30 ठीकरी 31 सेन्धवा 32 राजपुर 33 निवाली 34 झाबुआ 35 रानापुर	
37	बैतूल	118 बैतूल 119 शाहपुर 120 आमला 121 मुलताई 122 भैंसदेही	10 अलीराजपुर 11 बैतूल	36 अलीराजपुर 37 जोबट 38 मुलताई 39 आमला	
38	होशंगाबाद	123 बनखेड़ी	12 छतरपुर	40 छतरपुर 41 नौगांव 42 लौण्डी 43 राजनगर	
फसल—मूंगफली :			फसल—तिल :		
1	टीकमगढ़	1 निवाड़ी 2 पृथ्वीपुर 3 पलेरा 4 जतारा	13 धार 14 सिवनी	44 कुक्षी 45 सिवनी 46 लखनादौन 47 धनसौर	
2	शिवपुरी	5 कोलारस 6 करैरा 7 शिवपुरी 8 नरवर 9 पोहरी 10 पिछोर 11 खनियाधाना	1 दतिया 2 छतरपुर	1 दतिया 2 सेवड़ा 3 छतरपुर 4 नौगांव 5 राजनगर 6 बिजावर 7 गौरीहार 8 बड़ामल्हरा 9 लौण्डी	
3	खरगोन	12 खरगोन 13 भगवानपुरा 14 सैगांव 15 भीकनगांव 16 झिरन्या 17 कसरावद 18 बड़वाह	3 टीकमगढ़	10 निवाड़ी 11 पृथ्वीपुर 12 पलेरा 13 टीकमगढ़ 14 बल्देवगढ़ 15 जतारा	
4	छिन्दवाड़ा	19 साँसर 20 छिन्दवाड़ा			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
फसल—तिल :			फसल—कोदोकुटकी :		
4	सिवनी	16 लखनादौन	2	रीवा	4 सिरमौर
		17 घन्सौर	3	शहडोल	5 जैतपुर
5	खण्डवा	18 खण्डवा			6 ब्यौहारी
		19 हरसूद			7 जयसिंहनगर
6	पन्ना	20 पवई			8 सोहागपुर
		21 पन्ना	4	अनूपपुर	9 पुष्पराजगढ़
		22 शाहनगर			10 जैतहरी
		23 अजयगढ़	5	सीधी	11 गोपदबनास
		24 गुन्नौर			12 सिंहावल
7	शिवपुरी	25 नरवर			13 कुसमी
		26 करेरा			14 मझौली
		27 पोहरी			15 रामपुर नेकिन
		28 पिछोर			16 सिंगरौली
		29 खनियाधाना	6	सिंगरौली	17 देवसर
8	ग्वालियर	30 ग्वालियर			18 चितरंगी
		31 डबरा			19 छिन्दवाड़ा
9	मुँरैना	32 केलारस	7	छिन्दवाड़ा	20 तामिया
		33 सबलगढ़			21 परासिया
		34 जौरा			22 जामई (जुन्नारदेव)
10	भिण्ड	35 भिण्ड			23 अमरवाड़ा
		36 लहार			24 नैनपुर
11	श्योपुर	37 विजयपुर	8	मण्डला	25 मण्डला
		38 श्योपुर			26 बिछुआ
		39 कराहल			27 निवास
12	सीधी	40 गोपदबनास			28 जबलपुर
		41 सिंहावल			29 कुण्डम
		42 कुसमी	9	जबलपुर	30 ठीमरखेडा
		43 मझौली			31 बैतूल
		44 रामपुर नेकिन	10	कटनी	32 मुलताई
13	सिंगरौली	45 देवसर	11	बैतूल	33 भैंसदेही
		46 चितरंगी			34 लखनादौन
		47 सिंगरौली			35 घन्सौर
14	शहडोल	48 ब्यौहारी	12	सिवनी	36 बैहर
		49 जयसिंहनगर			37 इटारसी
		50 सोहागपुर	13	बालाघाट	38 हरसूद
		51 जेतपुर			39 शाहपुर
15	उमरिया	52 मानपुर	14	होशंगाबाद	40 डिण्डोरी
16	कटनी	53 मुड़वारा	15	खण्डवा	41 पवई
			16	डिण्डोरी	42 नरसिंहपुर
					43 गाडरवारा
			17	पन्ना	
			18	नरसिंहपुर	
फसल—कोदोकुटकी :					
1	उमरिया	1 बांधवगढ़			
		2 पाली			
		3 मानपुर			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
फसल—कपास :			फसल—कपास :		
1	खण्डवा	1 खण्डवा			26 मनावर
		2 पन्थाना			27 धर्मपुरी
		3 हरसूद			28 गंधवानी
2	बुरहानपुर	4 बुरहानपुर			29 कुक्षी
		5 नेपानगर	7	देवास	30 कन्नौद
		6 खकनार			31 खातेगांव
3	बड़वानी	7 बड़वानी			32 बागली
		8 ठीकरी	8	बैतूल	33 भैंसदेही
		9 राजपुर	9	हरदा	34 खिड़किया
		10 पानसेमल	10	झाबुआ	35 झाबुआ
		11 सेंधवा			36 पेटलावद
		12 निवाली			37 थांदला
4	खरगोन	13 खरगोन			38 मेघनगर
		14 भगवानपुरा			39 राणापुर
		15 सेगांव	11	अलीराजपुर	40 अलीराजपुर
		16 भीकनगांव			41 जोबट
		17 झिरन्या	12	रतलाम	42 पिपलोदा
		18 कसरावद			43 रतलाम
		19 महेश्वर			44 बाजना
		20 बड़वाह			45 सैलाना
5	छिन्दवाड़ा	21 पाहुर्णा	फसल—केला :		
		22 बिछुआ	1	बुरहानपुर	1 बुरहानपुर
		23 सौंसर			2 खकनार
6	धार	24 बदनावर			
		25 सरदारपुर			